

मासिक रिपोर्ट




मार्च 2024




प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्यों में मौजूदा आपूर्ति संबंधी चिंताओं को देखते हुए फरवरी में हल्दी की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। फरवरी-24 में एनसीडीईएक्स पर हल्दी का वायदा की कीमतों में माह-दर-माह लगभग 25% की बढ़ोतरी हुई है और 17162 पर बंद हुई। हल्दी में मजबूती मुख्य रूप से प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर सामान्य से कम आपूर्ति के मुकाबले स्टॉकिस्टों द्वारा ताबड़तोड़ खरीद के कारण थी। तेलंगाना और महाराष्ट्र में कटाई में देरी और कम उत्पादन के कारण आपूर्ति कम रही है। कम उत्पादन का असर आवक की गति पर देखा जा रहा है क्योंकि फरवरी-24 में प्रमुख एपीएमसी बाजार में पिछले वर्ष के 35.15 हजार टन के मुकाबले लगभग 15.2 हजार टन की आवक हुई। मौजूदा आपूर्ति की कमी के कारण स्टॉकिस्ट कीमतों में हर गिरावट पर हल्दी खरीदने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। पैदावार में गिरावट के बीच कम उत्पादन क्षेत्र के कारण उत्पादन में साल-दर-साल लगभग 16% गिरावट होने की संभावना है और यह 9.7-9.9 लाख टन के बीच रह सकता है। कुल आपूर्ति साल-दर-साल 14% घटकर 13.3 लाख टन होने की संभावना है। आगामी वर्ष के दौरान अंतिम स्टॉक कम रहने की संभावना है जिससे कीमतों में गिरावट पर अंकुश लग सकती है।

## हल्दी की मांग और आपूर्ति अनुमान (2024-25)



हल्दी की मौसमी कीमतों से पता चलता है कि मार्च के दौरान कीमतें मुख्य रूप से त्योहारी खरीदारी के कारण अधिक रहती हैं। आने वाले महीनों में त्योहारों और शादी के मौसम की शुरुआत के मद्देनजर मांग बढ़ने से खरीदार सक्रिय खरीदारी में लगे रहेंगे। लेकिन, हाल के महीनों में निराशाजनक निर्यात की रिपोर्ट से अत्यधिक बढ़त पर रोक लगने की संभावना है क्योंकि बांग्लादेश से कम खरीद के कारण भारत से हल्दी निर्यात दिसंबर-23 में 13% कम होकर 10.4 हजार टन रह गया। कीमतों में लगातार बढ़ोतरी वैश्विक खरीदारों को आक्रामक खरीदारी से दूर रखेगी, जिससे अत्यधिक बढ़त पर रोक लग सकती है। भारत ने अप्रैल-23-दिसंबर-23 के दौरान लगभग 121.17 हजार टन हल्दी का निर्यात किया, जो साल-दर-साल 2.27% कम है।

## हल्दी का मासिक निर्यात (1000 टन में)




## हल्दी का मासिक चार्ट




आने वाले हफ्तों में हल्दी की कीमतों के 14200-20500 के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है।

आगामी सीजन में बंपर उत्पादन की संभावनाओं के बाद फरवरी-24 के अधिकांश समय में जीरा वायदा की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सुस्त घरेलू खरीदारी और आपूर्ति में बढ़ोतरी की उम्मीद से बाजार के सॉटीमेंट पर असर पड़ा। फरवरी 2024 के अंत तक जीरा की कीमतें 8.7% मासिक गिरावट के साथ 24745 पर आ गईं। बाजार वर्ष 2024-25 में जीरा उत्पादन साल-दर-साल 30% बढ़कर 815 हजार टन होने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण जीरा के तहत उत्पादन क्षेत्र में अहम बढ़ोतरी है। मौसम की अनुकूल स्थिति और खेती की लागत की तुलना में बेहतर कीमत की प्राप्ति ने किसानों को बाजार वर्ष 2024-25 में जीरा के तहत उत्पादन क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। रबी की फसल होने के कारण, जीरे की कटाई मार्च में की जाती है और अगले महीने में कटाई की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। आने वाली बंपर फसल को ध्यान में रखते हुए, आने वाले महीनों में कुल आपूर्ति अधिक होने की संभावना है, जो कीमतों में बड़ी बढ़त को सीमित कर सकती है।



मौजूदा दरों पर जीरा की कीमतें प्रतिस्पर्धी हो गई हैं, जिसने अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को आकर्षित किया है। जीरा के निर्यात के मौसम से पता चलता है कि मार्च-अप्रैल में त्योहारों के मद्देनजर अधिक मांग की संभावनाओं के कारण मार्च के दौरान निर्यात मांग अधिक रहती है। बढ़ती मांग के साथ दिसंबर-23 में भारत से जीरा निर्यात बढ़ गया क्योंकि भारत ने पिछले वर्ष के 11.79 हजार टन की तुलना में दिसंबर-23 में लगभग 12.23 हजार टन का निर्यात किया। बंपर फसल की उम्मीद में बढ़त सीमित रहने की संभावना है। एफआईएसएस के अनुसार खेती के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि के कारण वर्ष 2024-25 के लिए उत्पादन 65% -70% सालाना बढ़कर 10.3 मिलियन बैग होने की संभावना है।

### भारत से जीरा निर्यात ( 1000 टन में )




### जीरा का मासिक चार्ट




जीरा की कीमतों के 21000-34500 के दायरे में रहने की संभावना है।

आगामी सीजन के लिए कमजोर आपूर्ति की संभावना के कारण धनिया की कीमतों में पिछले महीने बढ़त दर्ज की गई। भारत के उत्तरी और मध्य भाग में हाल ही में हुई असामयिक वर्षा के कारण बुआई क्षेत्र का बड़ा हिस्सा प्रभावित होने के कारण उपज के नुकसान की रिपोर्ट से भी धनिया की कीमतों को मदद मिली। धनिया के तहत कम रकबा और उपज में कमी की रिपोर्ट से वर्ष 2024-25 में धनिया का कुल उत्पादन कम हो सकता है। उत्पादन क्षेत्र में गिरावट के कारण उत्पादन में साल-दर-साल लगभग 10-15% की कमी होने की संभावना है और उपज साल-दर-साल 13% की गिरावट के साथ 7.37 लाख टन रह सकती है।



मजबूत निर्यात मांग से भी धनिया की कीमतों को सकारात्मक रुझान पर कारोबार करने में मदद मिली। भारत ने वर्ष 2023 में अप्रैल-दिसंबर के दौरान लगभग 78.47 हजार टन धनिया का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष के 24.8 टन की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 215% अधिक है। चीन, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात भारतीय धनिया निर्यात के प्रमुख निर्यात स्थल थे, जहां चीन सबसे बड़ा खरीदार रहा है, जिसने पिछले वर्ष के 3.1 हजार टन की तुलना में अप्रैल 24-दिसंबर 24 के दौरान लगभग 34.8 हजार टन का आयात किया।

### भारत से धनिया निर्यात (1000 टन में)



### धनिया का मासिक चार्ट



कम उत्पादन अनुमान के कारण कम आपूर्ति की संभावना के कारण धनिया में मजबूती बरकरार रहने की संभावना है। लेकिन आने वाले हफ्तों में नई आवक शुरू होने की संभावना है जिससे बढ़त सीमित हो सकती है। धनिया की कीमतों के 7300-8900 के दायरे में रहने की संभावना है।

|                   |                        |                     |              |  |
|-------------------|------------------------|---------------------|--------------|--|
| वंदना भारती       | एवीपी कमोडिटी रिसर्च   | फोन न. 011-30111000 | एक्सटें. 625 | <a href="mailto:vandanabharti@smcindiaonline.com">vandanabharti@smcindiaonline.com</a> |
| रवि पाण्डेय       | सीनियर रिसर्च एनालिस्ट | फोन न. 011-30111000 | एक्सटें. 674 | <a href="mailto:ravi16@smcindiaonline.com">ravi16@smcindiaonline.com</a>               |
| शिवानन्द उपाध्याय | रिसर्च एसोसिएट         | फोन न. 011-30111000 | एक्सटें. 646 | <a href="mailto:shivanand@smcindiaonline.com">shivanand@smcindiaonline.com</a>         |

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार को जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशांसात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएं और संबंधित सेवाएं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड का सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एसएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिक्वोरिटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

**दिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधि एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सब्सक्रिप्शन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विस्तृत सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पॉजिशन हो सकती है और यह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकार में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होगा।